

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०

बाबा साहब के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनका नाम वैसे ही लिखे जैसे उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं - राज्यपाल

लखनऊ: 05 दिसम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज सम्राट अशोक क्लब द्वारा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि डॉ० भीमराव आंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस दृष्टि से वे संविधान के प्रतीकों में से एक प्रतीक हैं। 'डॉ० आंबेडकर महाराष्ट्र से थे, मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, उपनाम उसी प्रकार लिखा जाना चाहिए जैसे महाराष्ट्र में लिखा जाता है। बाबा साहब का नाम वैसे ही लिखा जाना चाहिए जैसे संविधान की मूल प्रति के पृष्ठ 254 पर डॉ० आंबेडकर ने हस्ताक्षर किए हैं।' आम तौर से उनका नाम 'डॉ० भीम राव अम्बेडकर' लिखा जाता है जबकि वे स्वयं 'भीमराव आंबेडकर' लिखते थे। राज्यपाल ने कहा कि बाबा साहब के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनका नाम वैसे ही लिखे जैसे उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। राज्यपाल ने बताया कि उन्होंने इसी दृष्टि से 'डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा' का नाम 'डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा' करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी प्रेषित किया है।

राज्यपाल ने कहा कि यह गौरव की बात है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संविधान अपने आप में परिपूर्ण है। आवश्यकता पड़ने पर कुछ संशोधन अवश्य हुए हैं। पहले मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी, बाद में उसे संशोधन के उपरान्त 18 वर्ष किया गया। भारत में बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार डॉ० भीमराव आंबेडकर ने दिया। उन्होंने कहा कि संविधान की विशेषता को पहचानने और उसका अनुकरण करने की आवश्यकता है।

श्री नाईक ने कहा कि नवम्बर 1946 में संविधान समिति का गठन हुआ। देश 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुआ। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। संविधान सभा में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की चर्चा के बाद 26 नवम्बर, 1949 को संविधान के निर्माण का कार्य पूरा हुआ जिसको देश ने 26 जनवरी, 1950 को अंगीकार किया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्यपाल ने इस अवसर पर डॉ० आंबेडकर द्वारा दिए गए भाषण के कुछ अंश भी पढ़कर सुनाये। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यक्रम 26 नवम्बर को प्रस्तावित था परन्तु लखनऊ में सम्पन्न हो रहे शहरी निकाय चुनाव के मतदान के कारण इसे स्थगित कर आज 5 दिसम्बर को आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ० सच्चिदानंद मौर्य, लखनऊ शाखा के अध्यक्ष शाक्य के०पी० मौर्य, श्रम मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मगुरु लामा लोकजंग सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

अंजुम/ललित/राजभवन (449/8)

